

Date: September 06, 2025

To

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 BSE SCRIP CODE **530313 KIMIABL**

Subject: Newspaper Advertisement-Public Notice under Regulation and 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today, i.e. 6th September, 2025, where a Notice has published by Company after completion of dispatch (i.e. sending of emails) of Notice of the 32nd Annual General Meeting along with the Integrated Annual Report of the financial year 2024-25 in the following newspapers:

S. No	Newspaper	Version
1.	Financial Express (New Delhi)	English
2.	Jansatta (New Delhi)	Hindi

The said advertisements are also available on the website of the Company at www.kimiabiosciences.com.

You are requested to kindly take the above information on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Kimia Biosciences Limited

Sameer Goel Managing Director DIN: 00161786

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Office/Works Village Bhondsi, Damdama Lake Road, Gurugram, Haryana-122102 Tel.: +91 9654746544, 9654206544





KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

CIN: L24239HR1993PLC032120

Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com Tel: 011-47063600, 91 9654206544 | +91 9654746544 | Fax: 011-47063601/02

NOTICE OF THE 32" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 32" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 30", 2025 at 04:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013("the Act") read with the rules made thereunder, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with the circulars issued earlier on the subject by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations ,2015("Listing Regulations, without physical presence of the Members to transact the business set out in the notice of the 32" Annual General Meeting."). The Company has sent the notice of the AGM on Friday, September 05, 2025 by electronic mode to those Members whose Email ID's are registered with the Company/Depository Participant(s).

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("SEBI LODR Regulations"), MCA Circulars, SEBI Circulars and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to Members to exercise their votes on resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting and e-voting facility during the AGM ("Collectively referred as e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 23, 2025 ("cut-off date").

These documents are also available on the Company's website www.kimiabiosciences.com and on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the website of RTA www.beetalfinancial.com.

Members who have not registered their email IDs are requested to register the same with the respective

Depository Participant. Notice of the same has been published by the company on Friday. September 05, 2025. Members (including those who have not registered their email addresses) as-on the 'Cut-off Date (i.e. September 23, 2025), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM before the meeting or during the meeting through the electronic voting system. The detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the website of the Company www.kimiabiosciences.com.

Members are hereby informed the following:

and time for remote e-voting.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 27, 2025 (09:00 a.m.) (IST).
- Date and time of end of remote e-voting: Monday, September 29, 2025 (5:00 p.m.) (IST). Cut-off Date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or e-voting system at the
- AGM shall be September 23, 2025.
- The remote e-voting will be disabled beyond 5:00 p.m., (IST) on September 29, 2024.
- The members may log on to the e-voting website www.evoting.nsdl.com to cast their vote in favour or The members may note that the remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid date
- The facility for voting will also be made available during the AGM. Members present in the AGM through video conferencing facility who have not cast their vote through remote e-voting prior to the AGM shall be
- eligible to vote through the e-voting system at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but will
- not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it
- A person whose name appear in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off Date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system at the
- 11. Any non-individual shareholder, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the Cut-Off Date September 23, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at www.beetalfinancial.com.
- In case of Individual Shareholders acquires shares of the Company and become member of the Compan after dispatch of the notice and holding shares as on the Cut-Off Date September 23, 2025 may follow steps mentioned in Annexure II of the Notice of AGM under "Instructions for Shareholders/Members to Vote through remote e-voting.
- In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances related to electronic voting.
- The member who require technical assistance and participate in the meeting through Video Conferencing may send an email to www.beetalfinancial.com.
- 15. In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2024-25

Physical Holding	Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their email address with the Company are requested to register/update their email address submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company) duly filled and signeral along with requisite supporting documents to Beetal Financial and Computer Service Limited at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062.	
Demat Holding	Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email address with their Depository Participants are requested to register/update the same with the Depository Participants where they maintain their demat accounts.	

 Members can join and participate in the 32" AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 32" AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote

electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 32" AGM shall be provided in the Notice of 32" AGM. The notice shall also contain the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Date: 06.09.2025





By the Order of the Board of Directors For Kimia Biosciences Limited

Sameer Goel Managing Director & Chief Executive Officer

PUBLIC NOTICE

FORM C

[Under rule 9(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 20191

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VISHNU BHAGWAN S/o JANKI DASS (PERSONAL GUARANTOR OF OUR CO. INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PVT. LTD.)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-Il in case of bankrupt under section 60 of the Code has ordered the commencement of a bankruptcy process against the VISHNU BHAGWAN S/o JANKI DASS residing at D-17/213-214, Ground Floor, Sector 3, Rohini, New Delhi-110085 on 04.09.2025

The creditors of VISHNU BHAGWAN S/o JANKI DASS are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13.09,2025 (within Seven days from public notice). to the bankruptcy trustee at R-4/39, Raj Nagar, Ghaziabad-201002. The last date for submission of claims of creditors shall be 13.09.2025. The creditors may submit their claims through electronic means, or by hand or registered post or speed post or courier.

Additional details of the Bankruptcy Trustee: CA (IP) Deepak Mittal, IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001 /IP-P02096/2020-21/13264, Office phone no. +9188604 41411. Email: pg.ourco@gmail.comAddress: R-4/39, Raj Nagar, Ghaziabad-201002 Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

SALE NOTICE

SHREE SHYAM PULP AND BOARD MILLS LIMITED (In Liquidation)

Liquidator: Mr. Rohit Sehgal

Registered Office: A-104, Road No.-4, Mahilapur Ext, West Delhi, New Delhi-110037

Email ID: lamrs101@gmail.com,rohit.sehgal@truproinsolvency.com, shreeshyam@truproinsolvency.com

Contact No.: +919729048235 (Mr. Rahul Saini)

E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 03rd October , 2025 at 3.00 pm to 5.00 pm

Last Date to submit eligibility documents: 23rd September, 2025 by 5:00 pm IST

Last Date to deposit EMD: 01st October, 2025 by 3:00 pm IST

Sale of Assets and Properties owned by Shree Shyam Pulp and Board Mills Limited (in Liquidation) forming

part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law

Tribunal, Principal Bench, New Delhi, vide order dated 21st January 2020. The sale will be done by the

Area (In Hectary)

11.279

1.457

0.304

THEF

3.355

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"

THE COMPLETE AND DETAILED INFORMATION ABOUT THE ASSETS OF THE COMPANY ARE AVAILABLE

IN THE "E-AUCTION PROCESS DOCUMENT" AS ANNEXURE -VI IN THE DOCUMENT, WHICH IS

AVAILABLE ON THE WEBSITES i.e. https://baanknet.com/eauction-psb/home. THIS SALE NOTICE MUST BE

The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form,

Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on

websites https://baanknet.com/eauction-psb/home and https://truproinsolvency.com, Contact;

8291220220 support.baanknet@psballiance.com (Ongoing to the link https://baanknet.com/eauction-

psb/horne) interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two

options, (I) Company's name (Shree Shyam Pulp and Board Mills Limited), or by, (II) State and property type).

The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the

property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by

The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) as per the procedure given in

https://ibbi.gov.in/uploads/psb_alliance/Auction%20guide%20for%20Bidders%20(As%20on%2001.04.

The intending bidder should submit the pre-qualification documents through the procedure as laid down in

https://ibbi.gov.in/uploads/psb_alliance/Auction%20guide%20for%20Bidders%20(As%20on%2001.04.

The interested bidders are required to register themselves on the Baanknet.com platform by using the link

the prospective bidders at the site with prior appointment, contacting Mr. Rahul Saini: 9729048235.

READ ALONG WITH THE "E-AUCTION PROCESS DOCUMENT" TO GET THE COMPLETE INFORMATION.

Kharra No.

30 Mi

20.56

129 M

through approved service provider M/S PSB Alliance Pvt. Ltd. (Baanknet.com).

EMD

Amount

(In Rs.)

Rs. 36.30

Lakhs

Reserve

Price

(In Rs.)

Rs. 3.63

Crores-

Address for correspondence:

Haryana, 122002

iamrs101@gmail.com,

Email ID:

IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 Contact No.: 9729048235 (Mr. Rahul Saini)

581, 4th Floor, Sector-27, Gurgaon,

shreeshyam@truproinsolvency.com

Incremental

Value

(In Rs.)

Rs. 5 Lakhs

undersigned through the e-auction platform https://baanknet.com/

A Sale of the Land of the Corporate Debtor having the following

details mentioned below

Village

Garagapar

Gangapur Bakha

Сапрария

Gargapun Rukba

Total

Kitchia

Tehnil.

Kodipui

Kashipur

Keebignit

Sedupur

https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration

Shree Shyam Pulp and Board

Mills Limited-in Liquidation

Rohit Sehgal

IBBI Regn. No. :

Liquiator

DATE - 06.09.2025

Place: Gurugram

Terms and Condition of the E-auction are as under

Assets

Khata No.

Block

(With unlimited extension of 5 minutes each)

IBBI Regn No.: IBBI/IPA-001 /IP-P02096/2020-21/13264

Date: 06.09.2025 Place: Ghaziabad

CA (IP) Deepak Mittal Bankruptcy Trustee in case of Vishnu Bhagwan Regd. E- Mail ID: reshmaandco@gmail.com

Process E-Mail ID: pg.ourco@gmail.com Regd Address: R-4/39, Raj Nagar, Ghaziabad-201002

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED CIN: L74899DL1993PLC055768

Regd. Office: 44, Backary Portion, 2nd Floor, Regal Building, Connaught Place, Central Delhi, New Delhi, India; 110001 Phone No. 011-49096562 | Website: www.alchemist-corp.com; | E-mail ID: info@alchemist-corp.com

PUBLIC NOTICE TO THE MEMBERS FOR 32ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32^{ml} Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 30° September, 2025 at 04.00 PM IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set forth in the AGM Notice ("Notice") which would be circulated in due course of time.

Pursuant to General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other previous Circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other previous Circulars ssued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), companies are permitted to hold the AGM through VC or DAVM without physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2025. Accordingly, the AGM of the Company is being held n accordance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company will send the Notice along with the Integrated Report and Annual

Accounts for FY 2024-25 ("Annual Report") electronically to all its Members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Skyline Financial Services Pvt. Ltd ("Skyline"), Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depository Participants ("DPs") and will also be available on the website of the Company at www.ajchemist-corp.com, the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to

time ("SEBI Listing Regulations"), a physical communication will be sent to those shareholders whose e-mail IDs are not registered, containing the weblink and exact path of the Company's website from where the Annual Report can be accessed.

Members whose e-mail ID is not updated/registered and who wish to receive the Notice, Annual Report and all other communications by the Company, from time to time, may get their e-mail IDs updated/registered by submitting duly filled and signed Form ISR-1 to Skyline at info@skylinerta.com or to the Company at info@alchemist-corp.com. However, for the shares held in demat mode, members are requested to write All the Members holding shares in physical mode are mandatorily required to update/register their e-mail ID, mobile number, PAN and bank

account details through Form ISR-1 and ISR-2, furnish the nomination as provided in Rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 through Form SH-13 or opt out from giving the nomination through Form ISR-3 and change the nomination through Form SH-14. The forms are to be submitted along with the supporting documents to Skyline at D-153-A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi, Delhi, 110020. The forms are available on the website of the Company at www.alchemist-corp.com. However, for the shares held in demat mode, members are requested to write to their respective DPs. The Members can join and attend the AGM through VC/OAVM facility only or view the live webcast of the proceedings. The detailed procedure for

e-Voting and participation in the AGM through VC/OAVM or to view the live webcast will be provided in the Notes to the Notice for the Members holding shares in demat mode, physical mode and for the Members who have not registered their e-mail ID. The Members are requested to carefully read all the Notes as set out in the Notice and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-Voting or e-Voting

The joining links for the AGM and other details can also be accessed at www.alchemist-corp.com.

For Alchemist Corporation Limited Nitin Kumar (Company Secretary and Compliance Officer)

Date: September 05th, 2025 Place: New Delhi

DHAMPUR

DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED

CIN: L24112UP1992PLC014478

Regd. Office: Village Pallawala, Tehsil- Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh-246761 Corp. Office: 24, School Lane, Near World Trade Center, New Delhi-110001 Tel: +91-11-23711223, 23711224 | E-mail: cs@dhampurgreen.com www.dhampurgreen.com

NOTICE OF 33⁸⁰ ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given the 33th Annual General Meeting of the meeting of Dhampure Speciality Sugars Limited will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 01:30 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company at Village Pallawala Tehsil Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh-246761. The Notice and Annual Report of the company for the financial year ended March 31, 2025 has been sent via

MCA Circular and SEBI Circular. The dispatch of the notice of the AGM and Annual Report has been completed on 03rd September, 2025, in conformity with the regulatory requirement. In terms of section 108 of Companies Act, 2013 and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44of SEBI Listing Regulation, the Company is pleased to provide facilities for members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be transacted at the meeting

electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses in compliance with applicable

provision of the Companies Act, 2013, the SEBI (LODR) Regulation, 2015 ('Listing Regulations') read with

by electronic means i.e., through remote e-voting system, for which company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities. The date and time of commencement of remote e-voting September 27, 2025 at 09:00 A.M.

- 2. The date and time of end of remote e-voting September 29, 2025 at 05:00 P.M. remote e-voting shall not
- be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting module shall be blocked by NSDL for voting thereafter. The Record date/ Cut-off date: September 23, 2025.
- Book Closure: September 24, 2025 to September 30, 2025, Members whose name are recorded in the
 - register of members or in the Register of Beneficial owner maintained by the Depositories as on cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting facility. Persons who are not members as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.
 - A person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login ID and password by sending request at cs@dhampurgreen.com or evoting@nsdl.co.in. However, if a member is already registered for e-Voting, then existing User ID and password can be used for login and casting vote.
 - Member who have cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.
 - Members who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting shall be eligible to vote at the AGM.
- Website address of the Company where the Notice of the AGM is displayed, Company www.dhampurgreen.com. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchange viz, BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.nsdl.com
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Amit Vishal, (NSDL) National Securities Depository Limited, Trade World, A: Wing 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel (West) Mumbai MH 400013 IN or send an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no. 18001020990
- Mrs. Uma Verma, Practicing Company Secretary. (Membership No. F13296 and CP No. 18283) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.
- The declared results of voting along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.dhampurgreen.com and shall be submitted to Stock Exchange where the shares of Company are listed within 2 working days of conclusion of AGM.

For Dhampure Speciality Sugars Limited

Date: 05-09-2025 Place: New Delhi

Sorabh Gupta **Managing Director**

INDIAN OVERSEAS BANK

Regional Office: Building No. 80, First Floor, Near BSNL Office, Tejgarhi Crossing, Meerut -250005. Ph. 0121-2761701, 2762124. Fax: 2761703

MEGA E-Auction UNDER SARFAESI Act, 2002. On 26.09.2025

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES.

Sale of Immovable property/ies mortgaged to Bank under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.54 of 2002) Whereas the Authorised Officer of Indian Overseas Bank has taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Security interest (Enforcement) Rules 2002 in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS" for realisation of Bank's dues plus interest as details hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realise the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal (https://www.baanknet.com).

Sr. No.	Branch	Name of the Account	Bank Dues as on	Securities	Reserve Price	EMD/ Bid Multiplier	Branch Contact Details
1.	CHAKRATA ROAD	MOHD JAVED	Rs 20,45,163.77 as on 31.08,2025	E.M. of Residential Property situated Part of Pvt Plot No.13, Dar Aabadi Pragati Vihar Colony, Khasra No.217, Wake Dara Tala Swad Bairoon, Saharanpur (UP).	Rs. 12.50 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs 1,25,000/- (Bid Multiplier Rs. 25000)	Indian Overseas Bank, Chakrata Road Branch, M S COLLEGE CHAKRATA ROAD SAHARANPUR 247001 (UP) Contact No. 0132- 2661596, 2661597 Mob No. 8925951063
2.	KAMLA NAGAR	KAPIL KINKER	Rs. 32,38,000.00 as on 31.08.2025	Residential Flat No. 101, First Floor, baering at Kharsra No.125,127 &128, Divya Apartment, Yamuna Vihar Colony, Hariparwat Ward, Tehsil & District Agra.	Rs. 13.33 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 1,33,300/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overeas Bank, Kamla Nagar Branch Agra. B-194 Main Market, Kamla Nagar Agra (UP 282004 Mob No. 8925950455
3.	KAMLA NAGAR	OM PRAKASH VERMA	Rs. 30;93,000. as on 31.08.2025	Residential Flat No.402, Fourth Floor over Khasra No. 06,08 & 09, Plot No.21,22& 23 situated at Krishna Residency, Yamuna Vihar, Kamla Nagar, Mauza Ghatwasan, Mustkil Tehsil & District Agra.	Rs. 17.48 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 1,74,800/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overeas Bank, Kamla Nagar Branch Agra. B-194 Main Market, Kamla Nagar Agra (UP 282004 Mob No. 8925950455
4.	RG COLLEGE	M/s. B K REXINE (PROP – MOHD. ZUBAIR)	Rs. 2,09,46,552.18 as on 31,08,2025	Equitable mortgage of premises hall, basement covered area measuring 85.06 Sq. Mtr. Covered area measuring 85.06 Sq. Mtr. On ground floor and Covered area measuring 85.06 Sq. Mtr. on first floor without roof rights and open land measuring 87.40 Sq. Mtr. On ground floor part of property No. old 197 & 197-A, new 233 & 233/1A, 234 &231/3 Rose Valley Heights, Sarai Khair Nagar, Meerut, U.P.	Rs. 279.25 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 27,92,500/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overseas Bank, R G College, Chippi Tank, Meerut (UP) -250001. Mob No. 8925952803
5.	Rohta	ASHWINWI GARG	Rs. 15,08,290.02 as on 31.08.2025	Three house on plot no 2B, 3B & 4B on part of plot no 93 to 98 on Mi. Khasra no 386 & 387, Krishna Estate, Mauza Kua Khera, Agra with area measuring 181.85 square meter.	Rs. 25.26 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 2,52,600/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overseas Bank, Rohta Branch. Opp New Suraksh Vihar Colony Gwalior Road Rohta, Agra (UP) 282001. Mob No.7838699297
6.	SADAK DUDHALI	AKASH KUMAR	Rs. 14,08,068.90 as on 31.08,2025	E.M. of Residential Double storied House, situated at North Part of Plot No.15. Kh. No.25, at Village Dargapur Dar Abadi, New Gaurav Vihar Colony, Saharanpur (UP).	Rs. 16.97 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 1,69,700/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overseas Bank, Sadak Dudhali Branch. Village & Post Sadak Dudhali, Dehradun Road, Saharanpur (UP) -247001 Mob No. 8925951145
7.	Saharanpur Main	PRITAM SINGH SUSHEELA DEVI	Rs. 39,46,426.26 as on 31.08.2025	E.M. of Land & Building bearing Mpl No.LP109, constructed upon western part of Plot No.1, pertaining to Khasra No.86/1, Laxmi Puram Colony, Galira Road, behind St. Mary School, Saharanpur (UP)	Rs. 55.00 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 5,50,000/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	IOB Saharanpur Main Branch, Clock Tower Bhagat Singh Marg, Saharanpur Uttar Pradesh – 247001. Contact No. 8925950434
8.	Saharanpur Main	M/s. Jivi Enterprises Prop – Mr. Praveen Kumar		All part & parcel of the property consisting of Land & Building at Mpl No. 3/4653, Raj Vihar Colony, Saharanpur (UP) In the name of Sh. Nathu ram & Vinod Kumar Kashyap	Rs. 17.50 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 1,75,000/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	IOB Saharanpur Main Branch, Clock Tower Bhagat Singh Marg, Saharanpur Uttar Pradesh – 247001. Contact No. 8925950434
9.	Shamli	RAVINDER KUMAR	Rs. 13,27,375.00 as on 31.08.2025	Equitable Mortgage of residential building measuring 40.00 Sq. Mtr. Situated at Mohalla Kajiwada, Shamli UP	Rs. 12.87 Lakhs (Plus applicable Tax)	Rs. 1,28,700/- (Bid Multiplier Rs. 25,000)	Indian Overseas bank Shamli Delhi Saharanpur.Road, Dhimanpura,Shamli ,Dist-MUZAFFARNAGAR 247776 UTTAR PRADESH Mob No. 8925950608

Date of E-Auction 26.09.2025 Time of E-Auction: 11.00am to 4.00pm with auto extension of Ten minutes till sale is completed. EMD may be deposited till 25.09.2025 (before 5.00 PM) · All Property are under Symbolic Possession. The e-auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS" BASIS. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are no encumbrance on the properties placed on auction. Outstanding Dues of Local Self Government (property tax, water Sewerage, Electricity Bills etc.) to be Ascertained and borne by bidder However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property/ies & inspect & satisfy themselves. Properties can be inspected on 18.09.2025 and 19.09.2025 Between 11:00 A.M. to 04:00 PM (with prior appointment from bank)

The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc. May contact authorised representative of e-auction service provider

https://www.baanknet.com FOR DETAILED TERM AND CONDITIONS PLEASE VISIT WEBSITE https://www.baanknet.com and for bidder Registration https://www.baanknet.com This Notice is also to be treated as 15 days Statuary sale notice (Subsequent sale) to borrower and Guarantors (L/Rs) Under Rule 8(6) Security Interest (Enforcement), Rules 2002

epaper.financialexpress.com



Place: Meerut





Authorised Officer Indian Overseas Bank



New Delhi

नीचे उल्लिखित राशि (यों) के लिए, उज्जीवन रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा

1. जमीला बेगम उर्फ जमीला बेगम रिजवी पत्नी मकान नंबर के-368 की आवासीय संपत्ति का भूमि

खालिद हुसैन उर्फ खालिद हुसैन रिजवी उर्फ खालिद और भवन का वह सारा ट्रकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल

रिजवी उर्फ खालिद हुसैन, निवासी मकान नंबर 368. 75.69 वर्ग मीटर, आवास विकास, स्कीम संख्या 1

केशवपुरम, आवास विकास योजना नं केशवपुरम, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित

🛮 1 कल्याणपुर, कटारिजियोरा नवाब गंज कानपर नगर. 🖟 है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :— **सीमाएँ: पूर्व**

उत्तर प्रदेश— 208002; **2. राहिल रिजवी पुत्र खालिद** सङ्क, **पश्चिमः** सीएसए भूमि, उत्तरः मकान संख्या

हुसैन उर्फ खालिद हुसैन रिजवी उर्फ खालिद रिजवी के-369, दक्षिणः मकान संख्या के- 367, यह संपत्ति

उर्फ खालिद हुसैन निवासी मकान नंबर के-368, जमीला बेगम उर्फ जमीला बेगम रिजवी पत्नी खालिद

केशवपुरम, आवास विकास योजना नंबर 1 कल्याणपुर, हुसैन उर्फ खालिद हुसैन रिजवी उर्फ खालिद रिजवी

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कोरामंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक— 560095

क्षेत्रीय कार्यालय : जीएमटीटी बिल्डिंग, प्लॉट नं डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उत्तर प्रदेश)

नीचे उल्लिखित राशि (यों) के लिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

1. आरती पाल उपनाम आरती पॉल अकबरपुर बहरामपुर गाँव में, राहुल विहार कॉलोनी, हदबस्त ग्राम

पत्नी समीर पॉल, निवासी 191, गली अकबरपुर बहरामपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद.

नंबर 8, राहल विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में, खसरा संख्या 174 एमआई. का हिस्सा. 100 वर्ग

1. इमरान पुत्र सईद अहमद निवासी स्वामित्वधारक आवासीय भूखंड संख्या 12 की भूमि एवं भवन के

2. मुशर्रत पत्नी इमरान, निवासी 454, परिसीमन इस प्रकार है :— सीमाएँ : पूर्वः रास्ता, पश्चिमः हाबिल का

🏿 कृष्ण गंज, पिलखुवा, पिलखुवा 🖟 भूखंड, उत्तरः इमराना का भूखंड, दक्षिणः मोबिन का भूखंड। यह

1. **मोहम्मद आसिफ उर्फ मुहम्मद आसिफ पुत्र** जैनुल आबेदीन आवासीय प्लॉट नंबर 9 के समस्त वह

उर्फ जैनुल आबेदीन निवासी शेखपुर, खिचरा, डासना, धौलाना, भाग तथा अंश, जिनका क्षेत्रफल 85 वर्ग

उत्तर प्रदेश- 245301. पता यहां भी : ग्राम घर संख्या 78. गज यानी 71.09 वर्ग मीटर है, जो खसरा

खंडिया पोस्ट खोड, थाना अजीमनगर तहसील सदर, रामपर, संख्या 529 में से, ग्राम रावली, परगना

उत्तर प्रदेश— 244901; **२. फातमा पत्नी मोहम्मद आसिफ उर्फ** डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड

मुहम्मद आसिफ निवासी शेखपुर, खिचरा, डासना, हापुड, उत्तर प्रदेश में रिथत है, जिसका

धौलाना, उत्तर प्रदेश– 245301, पता यहां भी : तहसील टांडा, परिसीमन इस प्रकार है :– सीमाएँ: पूर्वः

सुरजपुर, रामपुर, लालपुर कलां, उत्तर प्रदेश– 244927; अन्य की संपत्ति, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः

3. जैनुल आबेदीन उर्फ जैनुल आबेदीन पुत्र फैयाज हुसैन अन्य की संपत्ति, दक्षिणः प्लॉट संख्या 8

निवासी शेखपुर, खिचरा, डासना, धौलाना, उत्तर प्रदेश–245301, यह संपत्ति जैनूल आबेदीन उर्फ जैनूल

पता यहां भी :100 ग्राम खंडिया पोस्ट खोड, तहसील सदर, आबेदीन पुत्र फैयाज हुसैन यानी आप में

हात, हापुड़, उत्तर प्रदेश – 245304 संपत्ति मुशर्रत पत्नी इमरान यानी आप में से नं 2 की है।

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथियों पर उधारकर्ता / गारंटर को एक मांग सूचना

जारी की है. जिसमें उधारकर्ता ⁄ गारंटर से संबंधित मांग सचना में उल्लिखित राशि को सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर चकाने

का आह्वान किया गया है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/बंधककर्ता,

सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता, सह-उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा स्चित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभृति हित

प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति का साँकेतिक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता / बंधककर्ता,

सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह—उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य

में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता,

सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह-उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति

का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन-देन, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित ब्याज और अन्य शुल्कों / व्ययों के अतिरिक्त

गज यानी 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले फ्रीहोल्ड आवासीय भुखंड

के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसक परिसीमन इस प्रकार है :--

सीमाएँः पूर्वः संपत्ति दीगर मलिक, पश्चिमः प्लॉट दीगर मालिक,

उत्तरः प्लॉट दीगर मालिक दक्षिणः रास्ता। यह संपत्ति आरती पाल

उपनाम आरती पॉल पत्नी समीर पॉल अर्थात आपके बीच में से नंबर

समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका क्षेत्रफल 39 वर्ग गज यानी

नगर खेडा अंदर सीमा नगर पालिका पिलखवा, परगना डासना,

तहसील धौलाना, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी

देहात, 32.61 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 81 में से, मोहल्ला सद्दीक

उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता

का नाम और पता

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208017;

उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/बंधककर्ता

का नाम और पता

2. समीर पॉल पुत्र सचिंद्र पॉल,

निवासी 191, गली नंबर 8, राहुल

विहार–।, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–

पिलखुवा, डाकघर, गाजियाबाद,

खंडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश – 244901;

चकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/

बंधककर्ता का नाम

एचएफ क्लॉथ हाउस, मोहम्मद

इरशाद की प्रोप्राइटरशिप (उधारकर्ता)

मोहम्मद दिलशाद, पिता मोहम्मद

मोहम्मद शुऐब, पिता मोहम्मद साबीर

मोहम्मद जुनैद, पिता मोहम्मद साबीर

साबीर (सह-उधारकर्ता 1)

(सह–उधारकर्ता 2)

(सह–उधारकर्ता 3)

रोका / निषद्ध किया गया है।

दिनांकः ०६.०९.२०२५ स्थानः मेरठ

के लिए मांग नोटिस जारी किया है।

उधारकर्ता / सह-

उधारकर्ता 🖊

गारंटर / बंधककर्ता का नाम

1. श्री नंद लाल राणा पुत्र

श्याम सिंह (उधारकर्ता)

3. श्री कुशल पाल पुत्र श्याम

दिनांक :06.09.2025, स्थानः एस.ए.एस नगर,पंजाब

सिंह (सह–उधारकर्ता 2)

2. श्रीमती रित् देवी

(सह–उधारकर्ता 1)

नंद लाल राणा की

लिए मांग सूचना जारी की है।

कर्जदार/सह-

कर्जदार/गारंटर/

बंधककर्ता

मैसर्स कृष्णा

(पार्टनरशिप फर्म)

(पार्टनर 1)

(पार्टनर 2)

एंटरप्राइजेज (कर्जदार)

श्री सुनील कुमार

. श्री प्रवीण कुमार

Mahindra FINANCE

ऋण संख्या और

ऋण राशि

9372047 दिनांक 20.09.2018

ऋण संख्या / अनुबंध संख्या

राशि रु. 20,29,169 / —(बीस

लाख उनतीस हजार एक सौ

उनसट रुपये मात्र)

ऋण खाता सं.

तथा ऋण राशि

स्वीकृति पत्र संदर्भ सं.

SME/VK/KE-001/21-22

दिनांक 04.05.2021.

ऋण सं. /अनुबंध सं.

ITLFLOT21274784

ऋण राशि

₹. 26,51,000/-

(रुपये छब्बीस लाख

इक्यावन हजार मात्र)

ISBL00118156717 ऋण

दिनाँक: 06/09/2025

245304;

उत्तर प्रदेश— 201009,

कृष्णगंज—2, पिलखुवा

स्थान : नोएडा

दिनाँक : 06/09/2025

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथियों पर उधारकर्ता ∕ गारंटर को एक मांग सूचना

जारी की है, जिसमें उधारकर्ता / गारंटर से संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित राशि को सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने

का आह्वान किया गया है। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/बंधककर्ता,

सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता, सह-उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित

प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति का साँकेतिक कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता/बंधककर्ता,

सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह—उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभत परिसंपत्तियों को ऋण से मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य

में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता.

सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता और सह—उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति

का लेन-देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन-देन, प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित ब्याज और अन्य शल्कों / व्ययों के अतिरिक्त

/खालिद हसैन यानी आप में से नंबर 1 की है।

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्) [नियम 8(1)]

13(2) सूचना तिथि :

28.05.2025

सूचना राशि :

रु. 9.61.714 / −

20.05.2025 के अनुसार

कब्जा तिथि :

03/09/2025

ऋण खाता संख्या

2370210170000001

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत्)

[नियम 8(1)]

13(2) सूचना तिथि : 27.03.2025

सूचना राशि

के अनुसार

कब्जा तिथि

02/09/2025

ऋण खाता संख्या

2210250250000011

13(2) सूचना तिथि :

सूचना राशि : रु. 3,00,661/

20—05—2025 के अनुसार

कब्जा तिथि :

04/09/2025

13(2) सूचना तिथि :

सूचना राशिः रु. 9,35,731 / -

20-05-2025 के अनुसार

कब्जा तिथि

04/09/2025

ऋण खाता संख्या

2203210170000029

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

लागु की जाने वाली सुरक्षा

का विवरण

ऋण पर गिरवी रखी अचल संपत्ति का विवरणः आइटम

संख्या–1–मकान संख्या ९९, क्षेत्रफल २१६.६६ वर्ग गज,

खसरा संख्या 3817, मोहल्ला बंकर नगर, मेरठ

250002 में स्थित। सीमाएँ: पूर्व में: 40 फीट 9 इंच / अन्य

का प्लॉट। पश्चिम मेंरू 40 फीट 9 इंच / सगीर हासा

का प्लॉट संख्या 11। उत्तर में: 48 फीट/12 फीट

चौडी सडक। दक्षिण में: 48 फीट/अन्य का प्लॉट

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001

सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला पश्चिम मुंबई— 400 070

कॉर्पोरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पीरामल अमिति बिल्डिंग

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

जबिक आप. नीचे उल्लिखित उधारकर्ता. सह–उधारकर्ता. गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण

लिया है। आप सभी द्वारा किए गए चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज

लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरओं / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 1 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ

संख्या 17 और 16।

अतः कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है. जिसमें उनसे कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई कल राशि का भगतान इस

नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के विरुद्ध करने का आहवान किया जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भूगतान की तिथि तक देय हो सकती

है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** कॉलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के

लिए बाध्य होगी। कुपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के उधारकर्ताओं

/ सह—उधारकर्ताओं / गारंटरओं / बंधककर्ताओं के खिलाफ **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** को उपलब्ध हैं, आपसे यह भी अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13)

के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से

सरफेसी अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के तहत मांग नोटिस

जबिक आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण लिया

है। आप सभी द्वारा की गई चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कॉलम नंबर 1 में उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को भविष्य के ब्याज के साथ चूकाने

तहसील डेराबस्सी, एस.ए.एस. नगर, पंजाब

इसलिए कॉलम नंबर 1 में उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें कॉलम नंबर 5 में दिखाए गए अनसार कल

राशि का भुगतान सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के खिलाफ इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर उक्त राशि के रूप में करने के लिए कहा जाता है। कॉलम

कमांक 5 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों सिहत कल राशि

जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित संपत्तियों पर

सरक्षा हित लाग करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। कपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना किया गया हैं जो महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को कानुन के तहत उक्त वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधेककर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध

हैं,आपसे यह भी ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित लेनदार की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

जबकि आप नीचे उल्लिखित कर्जदार, सह-कर्जदार, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी चल संपत्तियों को बंधक रखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण लिया है।

आप सभी द्वारा की गई चक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

अधिनियम के तहत एक प्रतिभृत लेनदार होने के नाते, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, कॉलम संख्या 1 में उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को भावी ब्याज के साथ चुकाने के

प्रवर्तित की जाने वाली

प्रतिभृति का विवरण

बंधक चल संपत्ति विवरणः मद संख्या-I- मेसर्स कृष्णा एंटरप्राइजेज. प्लॉट

संख्या 12, ब्लॉक-1, सेक्टर-5, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, बवाना,

उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110039 में स्थित संयंत्र और मशीनरी/यां, मशीनरी

पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, विद्युत प्रतिष्ठानों और जुड़नार पर पहला

ओर, रास्ता।

निपटान करने या उससे निपटने या सुरक्षित संपत्ति की बिक्री,पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण करने से रोकाँ/ निषिद्ध किया जाता है।

Mahindra FINANCE कॉपोरेंट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉपोरेंट पार्क,

और अनन्य प्रभार।

1 मेयर कलर सॉर्टिंग

मशीन सीजी-4

क्र.सं. मशीन का मॉडल और निर्मिति

लागू की जाने वाली

सरक्षा का विवरण

बंधक अचल संपत्ति का विवरणः मद संख्या–1– जमाबंदी 2013–14

और म्युटेशन संख्या 2054 के अनुसार गाँव खेलन,एच. बी.संख्या 169,

संख्या / खतौनी संख्या 52 / 78 से 84 में कूल 237 बीघा 14 बिश्वे

भूमि में से 2 बीघा 40 / 4754 14.07.2019 के हिस्से का सम्पूर्ण टुकड़ा

एवं अंश। 03.09.2025 तक सीमा इस प्रकार है: पूर्व की ओर या

उससे आगेः 84''की ओर, कृषि भूमि, पश्चिम की ओर या उससे आगेः

83'' की ओर, खलेन रोड, उत्तर की ओर या उससे आगे: 208'' की

ओर राजेश्वर की दकान दक्षिण की ओर या उससे आगे: 223" की

पंजीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001.

पीरामल अमिति बिल्डिंग, सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला पश्चिम मुंबई- 400 070.

आपूर्तिकर्ता

नॉर्थ इंडिया

क्रम्पेसर

प्राधिकृत अधिकारी,

6,24,451 / - 20-03-202

प्राधिकृत अधिकारी,

नियम 30 के अनुसार 1 एक राज्य से दसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) और एडटोफॉर प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन:

U74999DL2018PTC329900, पंजीकत

फॉर्म नं. आईएनसी-26

(कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के

कार्यालयः ९९, प्रथम तल, टी-एक्सटेंशन, विश्वाश पार्क सूर्या मॉर्डन स्कूल के पास, उत्तम नगर, दिल्ली. 110059 भारत में है के मामले में आम जनता को एतदारा सचना दी जाती है कि कंप-ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तह केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती । जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यातय को "राष्ट्रीर राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" बदलने में सक्षम बनाने के लिए 26.12.2024 क आयोजित वार्षिक आम बैठक / असाधारण आग बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पृष्टि क

मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्याल के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित हो की संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधि आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दशति हुए एव शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वार क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2वीं तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदा दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकत डाक द्वारा आवेदक कम्पनी के उपरोक्त पर

> आवेदक के लिए और उसकी ओर र एडटोफॉर प्राइवेट लिमिटेर हस्ता./ राशु मित्तर

दिनांकः 06.09.2025 डीआईएनः 08019691

पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से (सरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रूपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (6) के खंड (ए) के मामलें में (4) और धारा (ए) के मामऔर

के मामले में

मैसर्स एमिनेंट फर्निशिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U51311DL2004PTC129194) जिसका पंजीकृत कार्यालय । जे-IV9 नई संजय मार्केट्, मेन रोड, वजीरपुर जे, जे कॉलोनी, नई दिल्ली दिल्ली, दिल्ली-110052, इंडिया में स्थित हैं

आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपन केन्द्रीय सरकार के समेक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से 'हर्रियाणा राज्य' में स्थानांतरि करने के लिए तारीख 30.08.2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प व संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के फंरीकत कर्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण है

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कुर_एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख़ से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अल्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स. नई दिल्ली-110003, ईमेल आईडी rd.ser@mca.gov.in, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्व कर सकते हैं और इसकी प्रति आवदक कंपनी को उनके उपरोक्त फंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। पंजीकृत कार्यालय : जे-॥/७ नई संजय मार्केट, मेन

रोड, वजीरपुर जे, जे कॉलोनी, नई दिल्ली दिल्ली, दिल्ली–110052, इंडिया कुत्ते आवेदक की ओर से मैसर्स एमिनेंट फर्निशिंग्स प्राइवेट लिमिटेड राजेश जैन

रूपये में देय राशि..../-

के अनुसार

30.08.2025 तक कुल

राशि 32,72,779.68 / -

रुपये (बतीस लाख

तैहत्तर हजार सात सौ

उनासी रुपये अडसट

पैसे)

निम्न के अनसार

रुपये में देय

राशि/-

30.08.2025 तक

रु.44,36,226.10 / −

(केवल चौवालीस

लाख छत्तीस हजार

दो सौ छब्बीस रुपये

और दस पैसे)

बकाया

राशि रु. में

26.08.2025 तक

₹. 23,65,346.93/-

(रुपये तेईस लाख

पैंसठ हजार तीन

सौ छियालीस और

तिरानबे पैसे मात्र)

(निदेशक) बीआईएन : 00443783 वीआईएन : 00595364 तिथि : 06.09.2025 स्थान : नई दिल्ली

एनपीए की

तिथि और मांग

नोटिस की तिथि

एनपीए की

11.05.2021

मांग नोटिस

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

नोटिस की तिथि

एनपीए की

तिथि:

14.07.2019

डिमांड नोटिस

की तिथिः 03.

9.2025

हस्ता / प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

तिथि तथा मांग

सुचना की तिथि

एनपीए की

तिथि:

05.04.2022

मांग सूचना

की तिथि

03.09.2025

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001. मे **Mahindra FINANCE** कॉपीरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉपीरेट पार्क, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, कमानी जंक्शन कुर्ला पश्चिम मुंबई-400 070. मे

ऋण खाता संख्या और

ऋण राशि

अनुमोदन पत्र,

संदर्भ संख्या 9377023,

दिनांक 28.03.2019

ऋण संख्या / कॉन्ट्रैक्ट संख्या

ISBL00119174404

ऋण राशि

रुपये 15,18,715 / -

(पंद्रह लाख अठारह हजार

सात सौ पंद्रह रुपये)

जनसता

RELIGARE

6 सितंबर, 2025

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

CIN: L74899DL1984PLC146935 | फ़ोन: +91-11-4472 5676 वेबसाइट: www.religare.com; | ईमेल: investorservices@religare.com वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 41वीं वार्षिक आम बैठक के लिए ईमेल

आईडी पंजीकरण हेत् सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के प्रावधानों के अनुपालन में **(एमसीए परिपत्र**) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टबर, 2024 ("सेवी परिपत्र") (जिन्हें आगे सामृहिक रूप से "**परिपत्र**" कहा जाएगा), कंपनियों को 30 सितंबर, 2025 तक, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक ही स्थान पर वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ("**वीसी" / "ओएवीएम**") के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति है। अतः, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के परिपत्रों और प्रावधानों और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सुचीबद्धता विनियम") के अनुसार, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेंड ("कंपनी") की 41वीं वार्षिक आम बैठक (जिसे आगे "एजीएम" कहा जाएगा) **सोमवार, 29 सितंबर** 2025 को दोपहर 12:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों ("वीसी" / "ओएवीएम") वे माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम नोटिस में निधीरित व्यवसायों का संचालन किया जाएगा, जिसे एजीएम बुलाने के लिए यथासमय प्रसारित किया जाएगा।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सचना सहित यथासमय इलेक्टॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्टार और शेयर हस्तांतरण एजेंट/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। किसी भी सदस्य को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी, हालाँकि, शेयरधारकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन्हें भेजी जाएगी। सदस्य कृपया ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://religare.com/, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com, तथा रजिस्टार एव शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए"/ "केफिनटेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने के निर्देश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका:

कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने हेत् रिमोत ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सविधा ("**ई-वोटिंग**") प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की विधि वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना में प्रदान की

ई-मेल पता पंजीकत/अपडेट करने का तरीका:

ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेट के लिए. सदस्य इलेक्टॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट - केफिनटेक (आरटीए) को अनुरोध भेज सकते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य फॉर्म ISR-1 की स्कैन की गई प्रति और पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं, जबकि मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ केफिनटेक, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32, गांचीबोवली, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 को भेजी जानी चाहिए। उक्त फॉर्म ISR-1 कंपनी की वेबसाइट https://www.religare.com/Investor-Information.aspx पर उपलब्ध है।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और परिपत्रों के अनुपालन में है। किसी भी सदस्य को ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत हो तो वे सुश्री रजिता सी - कॉपॉरेट रजिस्टी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगृडा, हैदराबाद - 500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल कर सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और परिपत्रों के अनुपालन में

किसी भी सदस्य को ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत हो तो वे सुश्री रजिता सी - कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजींज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गांचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगडा, हैदराबाद - 500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल कर सकते हैं।

सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 04 जुलाई, 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 1407, 14वीं माजल, चिरजीव टावर, 43, नहरू प्लंस, नई दिल्ला - 110019 से प्रथम तल, कार्यालय संख्या 101, 2ई/23, झंडवाला-एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 में स्थानांतरित करने की मंजरी दे दी है, जो 20 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड अनज जैन

ढिनांक: 6 सितंबर, 2025 स्थान: नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED CIN: L24239HR1993PLC032120 Read, Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Harvana

E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com Tel: 011-47063600, 91 9654206544 | +91 9654746544 | Fax: 011-47063601/02 NOTICE OF THE 32" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 32" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited "the Company") will be held on Tuesday, September 30°, 2025 at 04:00 p.m. (IST) through Video Conferencing "VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013("the Act") read with the rules made thereunder. General Circular No. 09/2024 dated September 19 2024 read with the circulars issued earlier on the subject by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations ,2015("Listing Regulations, without

physical presence of the Members to transact the business set out in the notice of the 32" Annual General Meeting."). The Company has sent the notice of the AGM on Friday, September 05, 2025 by electronic mode to those Members whose Email ID's are registered with the Company/Depository Participant(s) In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("SEBI LODR Regulations"), MCA Circulars, SEBI Circulars and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by

the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to Members to exercise their votes on resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting and e-voting facility during the AGM "Collectively referred as e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"). The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 23, 2025 ("cut-off date"). These documents are also available on the Company's website www.kimiabiosciences.com and on the website of

the stock exchange www.bseindia.com and on the website of RTA www.beetalfinancial.com.

Members who have not registered their email IDs are requested to register the same with the respective Depository Participant, Notice of the same has been published by the company on Friday, September 05, 2025 Members (including those who have not registered their email addresses) as-on the 'Cut-off Date (i.e. September 23, 2025), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM before the meeting or during the meeting through the electronic voting system. The detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the website of the Company www.kimiabiosciences.com.

Members are hereby informed the following:

not be entitled to cast their vote again.

Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 27, 2025 (09:00 a.m.) (IST). Date and time of end of remote e-voting: Monday, September 29, 2025 (5:00 p.m.) (IST).

Cut-off Date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or e -voting system at the AGM shall be September 23, 2025.

The remote e-voting will be disabled beyond 5:00 p.m., (IST) on September 29, 2024

The members may log on to the e-voting website www.evoting.nsdl.com to cast their vote in favour or

The members may note that the remote e-voting module will be disabled by NSDL after the aforesaid date

The facility for voting will also be made available during the AGM. Members present in the AGM through video conferencing facility who have not cast their vote through remote e-voting prior to the AGM shall be

eligible to vote through the e-voting system at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but will

Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it

A person whose name appear in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

after dispatch of the notice and holding shares as on the Cut-Off Date September 23, 2025 may follow steps

Cut-Off Date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting system at the

Any non-individual shareholder, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the Cut-Off Date September 23, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at www.beetalfinancial.com. In case of Individual Shareholders acquires shares of the Company and become member of the Company

mentioned in Annexure II of the Notice of AGM under "Instructions for Shareholders/Members to Vote through remote e-voting. In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will address the grievances related to electronic voting. The member who require technical assistance and participate in the meeting through Video Conferencing

may send an email to www.beetalfinancial.com. In case, you have not registered your email address with the Company/Depository Participant, please follow

below instructions for registration of email id for obtaining Annual Report for the Financial Year 2024-25

Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their email address with the Company are requested to register/update their email address by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company) duly filled and signed along with requisite supporting documents to Beetal Financial and Computer Services Limited at Beetal House, 3" Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi-110062. Demat Holding Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their

email address with their Depository Participants are requested to register/update the same with the Depository Participants where they maintain their demat accounts. Members can join and participate in the 32" AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 32rd AGM through VC/OAVM and the manner of participation in the remote

electronic voting or casting vote through the e-voting system of NSDL during the 32" AGM shall be provided

in the Notice of 32" AGM. The notice shall also contain the instructions with regard to login credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form, who have not registered their email address either with the Company or their respective Depository Participant. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. By the Order of the Board of Directors

For Kimia Biosciences Limited Sameer Goel Managing Director & Chief Executive Officer

NOTICE

SOMANI IRON & STEELS LIMITED CIN: U27110UP1971PLC003427 Reg. Office-Somani Bhawan, 51/27, Nayaganj, Kanpur-208001 Phone-9839146442

Email Id: sislknp@gmail.com / cs@rhlprofiles.com

NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on Tuesday, 30° September, 2025 at 11:00 am at City Centre, 4° Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote evoting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has engaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 05.09.2025.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 23" September 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, September 27, 2025 at 09:30 A.M. and ends on Monday, September 29, 2025 at 5:00 P.M. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M of 29.09.2025. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company, & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any queries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and became member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, Somani Iron & Steels Limited, 63/2, City Centre, 4" Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 9839146442 email: cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password. For Somani Iron & Steels Limited

Place: Kanpur Date: 05.09.2025 Krishan Kr. Somani (Director) DIN: 01414928

गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड सीआईएनः L25209HR2022PLC102495 पताः इंडस्ट्रियल शेढ प्लॉट संख्या ६७५, सेक्टर-६९ आईएमटी, फरीदाबाद, बल्लमगढ, हरियाणा-121004

एतददारा सचित किया जाता है कि कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को प्रात: 11:00 बजे कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र के लाग प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विज्ञात साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की 30 अगस्त. 2025 की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसाय संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी

तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपन्न 09/2024 और 03 अक्टूबर, 2024 के सेबी परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी--2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 के माध्यम से सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थित के बिना, वीसी / ओएबीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपन्न, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, सेबी परिपत्र और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सुचीबद्धता विनियम") के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024--25 के लिए एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी के उन सभी सदस्यों को उनके ईमेल पतों पर न्डि दी गई है जिनकी इमेल आईडी 29 अगस्त 2025 (बनपास तिथि) तक कंपनी/डिपाजिट प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत की गई हैं। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 5 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.gayatrirubberchemicals.com, स्टॉक एक्सबेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseisndia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44, और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस-2) के सहपठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को 30 सितंबर, 2025 को आयोजित एजीएम में प्रस्तावित एजीएम की सुचना में उत्लिखित व्यवसायों के संबंध में सीडीएसएल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सर्विधा प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को एतहवारा सचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसायों का संचालन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग का विवरण निम्नानुसार हैं:

 वे सदस्य, जिनके नाम मंगलवार, 23 सितंबर 2025, जो कि कट—ऑफ तिथि है, तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सुबी में दिखाई देते हैं. ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। एक बार किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल देने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को प्रात: 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू डोगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सांय: 05:00 बजे (भारतीय समयानसार) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं ढाला है, वे

एजीएम के दौरान ईं–वोटिंग के माध्यम से अपना चोट डालने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग

लेने के हकदार होंगे. डालॉकि वे एजीएम में दोबारा अपना योट डालने के हकदार नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि (अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर 2025) से पहले शेयर खरीदे हैं, वे ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड सीबीएसएल को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-बोटिंग के लिए सीडीएसएल में पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

नोटिस और उसके व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज कंपनी के सदस्यों द्वारा एजीएम की तिथि तक, बिना किसी शुल्क के, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। निरीक्षण के इच्छ्क सदस्य अपने पंजीकृत ईमेल पते से sales@gayatrirubberchemicals.com पर अपने नाम और

फोलियो संख्या / डीमैट खाता संख्या का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग में किसी भी प्रश्न, असुविधा या शिकायत के लिए सीडीएसएल की हेल्पलाइन helpdesk.evoting@cdslindia.com पर संपर्क कर सकते हैं या

टोल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

शीढीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम https://www.evotingindia.com के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के मध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध है। वीसी के मध्यम से एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः 06 सितंबर 2025

शिल्प चोटाई प्रबंध निदेशक

optiemus ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: के -20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर - 11, नई दिल्ली - 110024 कॉर्पोरेट कार्यालय: डी-३४८, सेक्टर-६३, नोएडा, उत्तर प्रदेश - २०१३०७ वेवसाइट: www.optiemus.com, ई-मेल: info@optiemus.com, फ्रोन नं. 011-29840906

कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर करने की सूचना

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के अनुपालन में, परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 **("एमसीए परिपत्र")** और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 **("सेबी परिपत्र"),** के साथ पठित के अनुपालन में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड ("कंपनी") की 32वें वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अपराह 03:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विज्ञअल माध्यमों ("ओए**वीएम") के माध्यम से**, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 32वीं वार्षिक आम बैठक की सचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक आम बैठक की सूचना की ई-मेलिंग शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त, संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाला वेब-लिंक, सटीक पथ सहित, शुक्रवार, 5 सितंबर, 2025 को डाक के माध्यम से उन सदस्यों को भी भेजा गया है जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 तथा सेबी (सूचीबद्धता

दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपनी वेबसाइट www.evotingindia.com के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान कर रही है ताकि सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। जिन सदस्यों ने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है. उनके लिए भी वर्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जिन शेयरधारकों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी/आस्टीए द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं. वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST) से शुरू होगी और **सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (IST)** पर समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग बंद कर दी जाएगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है. वे वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं. लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

जिन शेयरधारकों ने नोटिस भेजने के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिपा) लिमिटेड **("सीडीएसएल")** को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजकर ईमेल और नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है।

लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं। ई-वोटिंग की सविधा और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए उक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सचीबद्धता टायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, **कंपनी के**

सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तत निर्देशों सहित एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

कते ऑप्टिमस इंफ्राकॉम तिमिटेड विकास चंद्र

दिनांक: 5 सितंबर, 2025 स्थान: नोएडा (उत्तर प्रदेश)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

निपटने या प्रतिभृत परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है। दिनांक: 06.09.2025, स्थान: दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड।

इसलिए, जैसा कि कॉलम संख्या 1 में उल्लेख किया गया है, कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों

के भीतर सभी संबंधित कर्जदार/सह–कर्जदार के विरुद्ध कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करें क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई गयी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज और अन्य राशियों सहित कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को कॉलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभृति हित के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे यह भी अनुरोध है कि ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभृति ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभृति का निपटान या उससे

epaper.jansatta.com

Place: New Delhi

Date: 06/09/2025